



**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)**

Corporate Identity Number(CIN) – U40102RJ2000SGC016484

**CHHABRA SUPER CRITICAL THERMAL POWER PROJECT,
CHHABRA(RAJASTHAN)**

Email:-ce_cons.ctpp@rvun.com website :-www.rvunl.com

NOTICE INVITING E-TENDER

Online e-tender are invited for **TN-SC-38 / 2020-21 (CHP)**, UBN No: **RVU2021WLOB00422**, Annual Contract for the work of complete operation, maintenance and housekeeping of coal handling plant at CSCTPP, Chhabra, including wagon unloading, operation & maintenance of heavy machineries and other equipments, Electrical & C&I works, of CHP area and other related works as specified in the scope of work for 2x660 MW Units, Unit-5&6 of Chhabra Super Critical Thermal Power Project (CSCTPP), RRVUNL, Chhabra. **TN-SC-39 / 2020-21 (MM)**, UBN No: **RVU2021GLOB00420**, Supply of One No. of Complete Cartridge Assembly (Model No. PDE CL-1501) or one to one fitment with the same for HFO Pressurizing Triple Screw Pump [(Model No. PDHU CL-1501.A42.B51), Make-UT PUMP LTD.] installed at 2x660 MW CSCTPP, Chhabra.

Offline Tender: - **TN-SC-31 / 2020-21 (MM)**, UBN No: **RVU2021GSOB00421**, Supply of Pipes, Fittings & Valves for Acid Handling system of unit # 5 & 6, (2x660 MW) CSCTPP, Chhabra.

Addl. Chief Engineer
CSCTPP, RVUNL, Chhabra



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED (A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

Corporate Identity Number(CIN) – U40102RJ2000SGC016484

CHHABRA SUPER CRITICAL THERMAL POWER PROJECT, CHHABRA
(RAJASTHAN)

Email:-ce.cons.ctpp@rrvun.com website :-www.rvunl.com

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ऑनलाइन प्रणाली के तहत निविदा संख्या **TN-SC-38 / 2020-21 (CHP), UBN No: RVU2021WLOB00422**, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आरवीयूएनएल, छबड़ा यूनिट 5 और 6 (2X660 मेगावाट) में कोयला हैंडलिंग प्लांट के पूर्ण संचालन, रखरखाव और हाउसकीपिंग के काम के लिए वार्षिक अनुबंध, जिसमें वैगन उतराई, भारी मशीनरी और अन्य उपकरणों के संचालन और रखरखाव, सीएचपी क्षेत्र के बिजली और सी एंड आई के काम शामिल हैं, जो की संबंधित क्षेत्र में निर्दिष्ट हैं। **TN-SC-39 / 2020-21 (MM), UBN No: RVU2021GLOB00420**, सीएससीटीपीपी, आरवीयूएनएल, छबड़ा यूनिट (2X660 मेगावाट) में स्थापित एचएफओ प्रेशराइजिंग ट्रिपल स्कू पंप [(मॉडल नंबर पीडीएचयू सीएल -1501. ए42. बी51), मेक-यूटी पंप लिमिटेड] के लिए एक नंबर कंप्लीट कार्ट्रिज असेंबली (मॉडल नंबर पीडीई सीएल -1501) या वन टू वन फिटमेंट के साथ, की आपूर्ति हेतु।

ऑफलाइन निविदा : TN-SC-31 / 2020-21 (MM), UBN No: RVU2021GSOB00421, सीएससीटीपीपी, आरवीयूएनएल, छबड़ा यूनिट 5 और 6 (2X660 मेगावाट) में एसिड हैंडलिंग प्रणाली के लिए पाइप्स, फिटिंग्स और वाल्वस की आपूर्ति हेतु।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता
सी. एस. सी. टी. पी.पी. छबड़ा



(For website)

**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (CSCTPP)
CHHABRA SUPERCRITICAL THERMAL POWER PROJECT, CHHABRA**

E-TENDER NOTICE

Chief Engineer (Chhabra Supercritical Thermal Power Project, Chhabra) on behalf of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. invites online tender for e-procurement through website <http://eproc.rajasthan.gov.in> from bidders of following supply/works. Details of tender and qualifying requirement are available on departmental website www.rvunl.com & SPPP Rajasthan portal (i.e. sppp.rajasthan.gov.in) and tender can be downloaded/submitted on e-procurement website <http://eproc.rajasthan.gov.in>.

Sr. No.	NIT No.	Item	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Tender Cost (Rs.)	Tender Processing Fees(Rs.)
1.	TN-SC-38 / 2020-21 (CHP)	Annual Contract for the work of complete operation, maintenance and housekeeping of coal handling plant at CSCTPP, Chhabra, including wagon unloading, operation & maintenance of heavy machineries and other equipments, Electrical & C&I works, of CHP area and other related works as specified in the scope of work for 2x660 MW Units, Unit-5&6 of Chhabra Super Critical Thermal Power Project (CSCTPP), RRVUNL, Chhabra.	110200000/-	2204000/-	5900/-	1000/-
2.	TN-SC-39 / 2020-21 (MM)	Supply of One No. of Complete Cartridge Assembly (Model No. PDE CL-1501) or one to one fitment with the same for HFO Pressurizing Triple Screw Pump [(Model No. PDHU CL-1501.A42.B51), Make-UT PUMP LTD.] installed at 2x660 MW CSCTPP, Chhabra.	2212500/-	44250/-	590/-	1000/-

OFF-LINE TENDER:

Sr. No.	NIT No. & Date	Item	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Tender Cost (Rs.)
1.	TN-SC-31 / 2020-21 (MM)	Supply of Pipes, Fittings & Valves for Acid Handling system of unit # 5 & 6, (2x660 MW) CSCTPP, Chhabra.	520000/-	10500/-	590/-

For Online Tender

Tender No. TN-SC-38/ 2020-21 (CHP), TN-SC-39/ 2020-21 (MM)

Sr. No.	SCHEDULE OF DATE & TIME	Date	TIME
A	Start date & time for downloading the tender documents.	23.06.2020	11:00 AM
B	Start date & time for online submission of tender	23.06.2020	01:00 PM
C	Last date & Time for downloading of tender documents.	13.07.2020	11:00 AM
D	Last Date & Time for online submission of tender.	13.07.2020	01:00 PM
E	Last date & Time for submission of Tender Document cost, Tender Processing fee & EMD amount.	13.07.2020	03:30 PM
F	Date & Time for Online opening of Technical bid.	15.07.2020	03:00 PM

For Offline Tender:-

Tender No. TN-SC-31/ 2020-21 (MM)

Sr. No.	SCHEDULE OF DATE & TIME	Date	TIME
A	Start date & time for downloading the tender documents.	23.06.2020	11:00 AM
B	Start date & time for submission of tender	23.06.2020	01:00 PM
C	Last date & Time for downloading of tender documents.	13.07.2020	11:00 AM
D	Last Date & Time for submission of tender.	13.07.2020	01:00 PM
E	Last date & Time for submission of Tender Document cost, & EMD amount.	13.07.2020	03:30 PM
F	Date & Time for opening of Technical bid.	15.07.2020	03:00 PM

TENDER EVENT

Note-

1. All bidders are mandated to get enrolled on the e-procurement portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> in order to download the tender documents & other particulars in the subsequent bidding process.
2. Total amount (Tender Cost + Tender Processing Fees + EMD) is preferably be deposited through digital mode (NEFT/RTGS) in single transaction in the bank account payable at Chhabra in favour of Accounts Officer, CSCTPP, RVUN, Chhabra and after making above payment through digital/online mode the payment advice of transactions must be send in the office of concerned Circle in-charges E-mail ID.
3. Any Corrigendum/ amendment, if any will be issued on RVUNL website i.e. www.rvunl.com

**Addl. Chief Engineer
CSCTPP, RVUNL, Chhabra**



राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
कारपोरेट आइडेन्डिटी नम्बर (सी.आई.एन.) – यू40102आर जे2000एस जी सी 016484
रजिस्टर्ड ऑफिस व एच.ओ. : विद्युत भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर- 302005
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
छबडा सुपरक्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना,
Email:-ce.cons.ctpp@rrvun.com

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की छबडा सुपरक्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना, छबडा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्मों से निम्नलिखित सेवा हेतु डबल बिड सिस्टम के अनुसार मोहर बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है : –

क्रमांक	टेन्डर क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु।)	अग्रिम धन (रु।)	निविदा लागत (रु।)	टेन्डर प्रोसेसिंग फीस
1.	TN-SC-38/ 2020-21 (CHP)	छबडा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आरवीयूएनएल, छबडा यूनिट 5 और 6 (2X660 मेगावाट) में कोयला हैंडलिंग प्लांट के पूर्ण संचालन, रखरखाव और हाउसकीपिंग के काम के लिए वार्षिक अनुबंध, जिसमें वैगन उतराई, भारी मशीनरी और अन्य उपकरणों के संचालन और रखरखाव, सीएचपी क्षेत्र के बिजली और सी एंड आई के काम शामिल हैं, जो की संबंधित क्षेत्र में निर्दिष्ट हैं।	110200000 /-	2204000 /-	5900/-	1000/-
2.	TN-SC-39/ 2020-21 (MM)	सीएससीटीपीपी, आरवीयूएनएल, छबडा यूनिट (2X660 मेगावाट) में स्थापित एचएफओ प्रेशराइजिंग ट्रिपल स्कू पंप [(मॉडल नंबर पीडीएचयू सीएल -1501. ए42. बी51), मेक-यूटी पंप लिमिटेड] के लिए एक नंबर कंप्लीट कार्ट्रिज असेंबली (मॉडल नंबर पीडीई सीएल -1501) या वन टू वन फिटमेंट के साथ, की आपूर्ति हेतु।	2212500/-	44250/-	590/-	1000/-

ऑफलाइन निविदा

क्रमांक	टेन्डर क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु।)	अग्रिम धन (रु।)	निविदा लागत (रु।)
1.	TN-SC-31/ 2020-21 (MM)	सीएससीटीपीपी, आरवीयूएनएल, छबडा यूनिट 5 और 6 (2X660 मेगावाट) में एसिड हैंडलिंग प्रणाली के लिए पाइप्स, फिटिंग्स और वाल्वस की आपूर्ति हेतु।	520000/-	10500/-	590/-

For Online Tender

Tender No. TN-SC-38/ 2020-21 (CHP), TN-SC-39/ 2020-21 (MM)

क्रमांक	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आरंभ तिथि व समय	23.06.2020	11:00 AM
2.	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की आरंभ तिथि व समय	23.06.2020	01:00 PM
3.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	13.07.2020	11:00 AM
4.	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	13.07.2020	01:00 PM
5.	निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की तिथि व समय	13.07.2020	03:30 PM
6.	निविदा खोलने की तिथि व समय	15.07.2020	03:00 PM

ऑफलाइन निविदाएं

Tender No. TN-SC-31/ 2020-21 (MM)

क्रमांक	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आरंभ तिथि व समय	23.06.2020	11:00 AM
2.	निविदा प्रपत्र जमा करने की आरंभ तिथि व समय	23.06.2020	01:00 PM
3.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	13.07.2020	11:00 AM
4.	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि व समय	13.07.2020	01:00 PM
5.	निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की तिथि व समय	13.07.2020	03:30 PM
6.	निविदा खोलने की तिथि व समय	15.07.2020	03:00 PM

विस्तृत निविदा तथा प्रपत्र वेबसाइट “www.eproc.rajasthan.gov.in” से टेण्डर आईडी द्वारा उपरोक्त दिनांक तक डाउनलोड किये जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों को वाछिंत इलेक्ट्रॉनिक फाइल में डिजीटल हस्ताक्षरों सहित अपलोड करनी होगी। विस्तृत निविदा सूचना वेब साइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकती है।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता
सी. एस. सी. टी. पी.पी. छबड़ा

QUALIFYING REQUIREMENT

**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE DY. CHIEF ENGINEER (CHP)
CSCTPP, CHHABRA**

Name of Work: Annual contract for the Work of complete operation, maintenance and housekeeping of coal handling plant at CSCTPP, Chhabra, including wagon unloading, operation & maintenance of heavy machineries and other equipment, Electrical & C&I works, of CHP area and other related works as specified in the scope of work for 2x660 MW Units, Unit-5&6 of Chhabra Super Critical Thermal Power Project (CSCTPP), Chhabra.

PRE-QUALIFYING REQUIREMENT

- 1) The bidders should have Average financial turn over in the preceding 3 (Three) completed financial years as on date of bid opening should not be less than Rs 3.306 Crore (equal to 30% of the estimated cost). Other income shall not be considered for arriving at annual turnover.

Note:- In case where audited results for preceding financial year are not available, clarification of financial statements from a practicing chartered accounted shall also be considered acceptable.

- 2) The Bidder should have an experience of having successfully executed /completed either of the following contract for the work of “Operation & Maintenance/ Overhauling of Automated PLC based Coal Handling Plant” having wagon tippler and Stacker-Reclaimer in thermal power plants of unit size 195 MW or above of Govt./Semi Govt./PSU Sector during last 7 years ending last day of the month previous to the date of issue of the NIT. The contract should also include the work of Rail Track Maintenance including Maintenance of marshalling yard, unloading of coal rakes, Operation & Maintenance of Heavy Machinery such as Locomotives, Bulldozers, Loader, Excavator and weighbridges etc. Also bidder should have an experience of handling minimum 350 labours at a time for continuous period of one year in thermal power plants of unit size 195 MW or above of Govt./Semi Govt./PSU Sector during last 7 years ending last day of month previous to the date of issue of the NIT :-

(a) Three contract of “similar works” each costing not less than Rs.4.408Cr.

(equal to 40% of the estimated cost)

OR

(b) Two contract of “similar works” each costing not less than Rs. 5.510Cr. *(equal to 50% of the*

estimated cost)

OR

(c) One contract of “similar works” costing not less than Rs. 8.816Cr.

(equal to 80% of the estimated cost)

Similar Work” means: “Operation & Maintenance /Overhauling of Automated PLC based Coal Handling Plant” having wagon tippler and Stacker-Reclaimer in thermal power plant of unit size 195 MW or above and also handling minimum 350 labours at a time for continuous period of one year in power plants of Govt./Semi Govt./PSU Sector. The work should also include Rail Track Maintenance including Maintenance of marshalling yard, unloading of coal rakes, Operation & Maintenance of weighbridges, Operation & Maintenance of Heavy

Machinery such as Locomotives, Bulldozers, Loaders and Excavator etc. **The same shall be supported by documentary evidence issued by the owner.**

In support of the above, bidder shall furnish documentary evidence, copies of work order along with Satisfactory performance certificate/ Work Completion certificate for above works executed by the firm issued by owner /order placing authorities. In case of works awarded by RVUN performance certificate issued on or after 06.01.2017 should be signed by the Chief Engineer/ In charge of power station/ Project.

NOTE:-

- I) The work executed means that the bidder should have achieved the progress specified in the QR even if the total contract is not completed/closed. Payment receipt document with reference to WO No. and date or work execution certificate with executed value and referred order no. & date from the Owner to this effect that the job to this extent has been done by the Bidder satisfactorily may also be considered as a proof of execution even if the work has not been completed in totality (subject to furnishing proof of executed value of work in the form of certified copies of RA Bills) or any relevant documents, which is sufficient to prove the works completed or to be completed.

The same shall be supported by documentary evidence issued by the owner.

- II) The above orders should be directly placed on the tenderer. Experience of Sub-letted work will not be considered.
- 3) The participating bidders should have GST registration with Central Excise Department, PF registration, PAN card, ESI registration and labour licence and class "A" electrical licence. If any of the above presently is not available with them, then they will furnish an undertaking on Rs. 100/- Non judicial stamp paper duly attested by notary for submitting the same within one month from issue of LOI.

NOTE:

- I) Any firm who have been directly or indirectly terminated/blacklisted in any thermal power plant across India for any reason whatsoever and duration is still continued will not be considered eligible for participation in this tender for which an under taking on Rs. 100/- Non judicial Stamp paper shall be furnished by the bidder. In case if it is found at any point of time that the undertaking given by them is not correct, in that case he will not be considered qualified or order awarded to them shall be terminated. The bidder shall also be black listed for all future contract of RVUN.
- II) Bidder shall produce all supporting documents (original / self-authenticated and attested by Public Notary) in respect of QR of as asked in the NIT and an affidavit in original on a Non-judicial stamp paper of Rs. 100/- regarding genuineness of the declaration/information furnished by them and authenticity of the supporting documents being produced by them, within the same time frame.
- III) Bidder shall produce undertaking on a Non-judicial stamp paper of Rs. 100/- regarding genuineness experience of handling minimum 350 labours at a time for continuous period of one year in thermal power plants of unit size 195 MW or above of Govt./Semi Govt./PSU Sector as per QR Clause No.2.

**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (MM)
CSCTPP, CHHABRA**

Supply of One No. of Complete Cartridge Assembly (Model No. PDE CL-1501) or one to one fitment with the same for HFO Pressurizing Triple Screw Pump [(Model No. PDHU CL-1501.A42.B51), Make-UT PUMP LTD.] installed at 2x660 MW CSCTPP, Chhabra AGAINST NIT No. RRVUNL/CSCTPP/ TN-SC-39/2020-21(MM). (Estimated Cost Rs.22,12,500 .00)

QUALIFYING REQUIREMENT

All bidders participating in the tender must possess the following qualifying requirements (Relevant documents should be uploaded with Part-A bid)

1. The bidder must be manufacturer/ Established supplier of the manufacturer/ Authorized dealer of manufacturer/ Authorized Distributor of manufacturer.
2. The bidders should have average financial turnover in the preceding 3 (three) completed financial years that shall not be less than the estimated cost. For this purpose, the bidder shall furnish the Audited annual account/ Balance sheets/ duly certified accounts by Registered Chartered Accountant.
3. The bidder should have experience of having successfully completed supply of spares of Pumps in any of the PSU/ NTPC /BHEL/Reputed industrial Organization or any power plant during last 7 years prior to techno-commercial bid opening date and with either of the following executed value(s) of Purchase Order(s):-
 - i. Three executed /completed Purchase Orders, as above, costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost each amounting **Rs. 8,85,000.00**
OR
 - ii. Two executed /completed Purchase Orders, as above, costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost each amounting **Rs. 11,06,250.00**
OR
 - iii. One executed/ completed Purchase Orders, as above, costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost each amounting **Rs. 17,70,000.00**

In case of Dealer/Distributor, purchase order copies in favour of manufacturer are also acceptable. In such case Dealer/ Distributor shall provide the Dealership / Authorization Certificate.

4. In respect of relevant order(s) at S.No. 3 above, bidder must upload copy of acceptance of material/completion report/performance report/SD refund documents/ **Tax Invoice along with self attested declaration certificate of acceptance of material (format enclosed) or inspection report.**
5. The bidder should have valid GSTIN and copy of the same must be furnished

(AAO-I, CSCTPP)
CS-CTPP, RVUN Chhabra

(XEN-Boiler, CSCTPP)
CS-CTPP, RVUN Chhabra

(XEN-MM-III, CSCTPP)
CS-CTPP, RVUN Chhabra

(N.S. Khangarot)
Superintending Engineer(MM)
CSCTPP, RVUNL, Chhabra

**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (MM)
CSCTPP, CHHABRA**

PRE-QUALIFYING REQUIREMENT

Supply of Pipe, Fittings & Valves for Acid Handling System of Unit # 5&6 ,2 X 660 MW ,CSCTPP, Chhabra having estimated cost Rs. 5.20 Lacs against Tender No. TN-SC-31/2020-21(MM)

- A. All bidders participating in the tender must possess the following qualifying requirements (Relevant documents should be up loaded with Part-A bid):-
1. The bidder must be manufacturer / Established supplier of manufacturer / Authorized dealer of manufacturer / Authorized distributor of manufacturer or competent importer.
 2. The bidders should have Average financial turn over in the proceeding 3 (Three) completed financial years shall not be less than the estimated cost For this purpose , the bidder shall furnish the Audited annual account / Balance sheets / Duly certified accounts by Registered Chartered Accountant.
 3. The bidder should have experience of having successfully completed supply of **Pipe/ Fittings/ Valves** in any of the PSU / NTPC / BHEL / Reputed industrial Organization or Any power plant during last 7 years prior to techno-commercial bid opening date with either of the following executed value(s) of Purchase Order(s) :
 - a) Three executed/ completed Purchase Orders, as above, costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost each. (i.e Rs. 208000/-)
OR
 - b) Two executed/ completed Purchase Orders, as above, costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost each. (i.e Rs. 260000/-)
OR
 - b) One executed/ completed Purchase Order, as above, costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost each. (i.e Rs. 416000/-)

In case of Dealer/ Distributor, purchase order copies in favour of manufacturer are also accepted. In such case dealer/ Distributor shall provide the Dealership/ Authorization certificate.
 4. In respect of the relevant order(s) at S. No.-3 above, bidder must upload copy of acceptance of material / completion report / performance report / SD refund documents/ Tax invoice along with self attested declaration certificate of acceptance of material (Formate enclosed) or inspection report.
 5. The bidder should have valid GSTIN.

(Mukesh Meena)
AAO (CS-CTPP)
CS-CTPP, RVUN Chhabra

(Sanjay Wadhwa)
XEN (MM)
CS-CTPP, RVUN Chhabra

(Rajesh Mantri)
XEN (CA)
CS-CTPP, RVUN Chhabra

(N. S. Khangarot)
Superintending Engineer(MM)
CS-CTPP, RVUN, Chhabra